



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 18-05-21

**ऑक्सीजन फ्लो मीटर की काला बाजारी करने वाले 02 अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से 25 अदद आक्सीजन फ्लो मीटर, 1 कार, 12,000 रुपये व 03 अदद मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 18-05-2021

जनपद में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी को रोकने के दृष्टिगत पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक महोदय द्वारा जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है जिसके अनुक्रम में दिनांक: 17-05-2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद श्री अमित पाठक के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर के परिवेक्षण में कार्यवाही करते हुए ऑक्सीजन फ्लो मीटर की काला बाजारी करने वाले 02 अभियुक्तगण 1- दानिश पुत्र जिया अहमद नि0 700/46, गली न0 27 विजय पार्क थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष, 2- मोहसिन पुत्र अनीस नि0 776 गली न0 27 विजय पार्क थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष को जस्सीपुरा तिराहे से पीएसी चौक के पास मुल्तानीमल धर्मशाला के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से से 25 अदद आक्सीजन फ्लो मीटर, 1 कार 12,000 रुपये व 03 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण की बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-396/2021 धारा 420 भादवि व 3 महामारी अधिनियम व 52/53 आपदा प्रबन्धन अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**अभियुक्त से पूछताछ का विवरण :-**

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण भारी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनकी जान बचाने हेतु कोविड के मरीज अपने घरों पर ही रहकर आक्सीजन गैस सिलेण्डर का उपयोग कर आक्सीजन ले रहे हैं। आक्सीजन गैस सिलेण्डर से आक्सीजन लेने के लिए आक्सीजन फ्लो मीटर की आवश्यकता पडती है। जिससे आक्सीजन फ्लो मीटर की भारी माँग उत्पन्न हो गयी है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए ऑक्सीजन फ्लो मीटर को मनचाही कीमत 15-20 हजार रुपये तक बेचकर कालाबाजारी की जा रही है। जिसकी असल कीमत 1000 रुपये के करीब होती है गिरफ्तार अभियुक्त ऑक्सीजन फ्लो मीटर दिल्ली से भिन्न-भिन्न सर्जिकल स्टोरो से खरीद कर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भारी मात्रा में लाकर ये लोग जरूरत मन्द ग्राहक ढूढते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनसे मनचाही कीमत वसूलते हैं। **गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता :-**

- 1- दानिश पुत्र जिया अहमद नि0 700/46, गली न0 27 विजय पाल थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष,
- 2- मोहसिन पुत्र अनीस नि0 776 गली न0 27 विजय पाल थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

**अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण :-**

1. मु0अ0सं0-396/धारा 420 भादवि व 3 महामारी अधिनियम व 52 2021/आपदा प्रबन्धन अधिनियम 53 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण :-**

1. 25 अदद आक्सीजन फ्लो मीटर।
2. 01 कार संख्या DL1CU4311।
3. 12,000 रुपये बरामद।
4. 03 अदद मोबाइल फोन।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम :-**

1. प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. उ0नि0 दिनेशपाल सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. उ0नि0 श्री विकास शर्मा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
4. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
5. का0 161 रामसेवक थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
6. है0का0 1160 रुपेन्द्र चौधरी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

7. का0 467 विपिन कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।



**थाना कविनगर पुलिस द्वारा ATM काटने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया ,अभियुक्त के कब्जे से ATM काटने के उपकरण व एक तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद**

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 760/2021 धारा 379/511 भादवि की घटना का सफल अनावरण करते हुए **अभियोग मे वांछित अभियुक्त सुनील कुमार** पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी जगदीशपुर मैदी सौरान इलाहाबाद हाल निवासी किराये का मकान स्वर्णजयंती पुरम थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद को दिनांक 18.05.2021 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर NDRF रोड हरसांव मोड के पास थाना क्षेत्र कविनगर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से ATM काटने में प्रयुक्त एक लोहे की आरी व एक तमंचा 12 बोर व 1 जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ । बरामद तमंचा के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 773/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

**अपराध कारित करने का तरीका:-**

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो अवैध अस्लाह के साथ रात्रि में मौका देखकर ATM मशीन काटने का प्रयास करता है, जिसने दिनांक 16.05.21 की रात्रि में गौर होम्स के पास HDFC बैंक के ATM से रुपये चोरी करने का प्रयास किया, जिसके सम्बन्ध में HDFC बैंक एफ ब्लॉक गौर होम्स के ब्रांच मैनेजर श्री पुनित सरीन द्वारा दिनांक 17.05.21 को तहरीर देकर थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 760/21 धारा 379/511 भादवि पंजीकृत कराया था

थाना कविनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -**

सुनील कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी जगदीशपुर मैदी सौरान इलाहाबाद हाल निवासी किराये का मकान स्वर्णजयंती पुरम थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष शिक्षा 12वीं पास ।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण-**

- 1- मु0अ0सं0 760/2021 धारा 379/511 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
  - 2- मु0अ0सं0 773/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**बरामदगी:-**

- (1) एक तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर
- (2) घटना में प्रयुक्त ATM काटने हेतु लोहे की आरी ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री गुलशन कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. का0 भूपेन्द्र सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद ।



## अवैध नशीला पदार्थ (अल्प्राजोलम) के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी मोदीनगर के निर्देशन में थाना प्रभारी भोजपुर मय टीम द्वारा दिनांक 17.05.21 को चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त सोनी उर्फ फिरोज पुत्र रईसु नि० मौ० कुरैशियान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा०बाद को ईदगाह गेट फरीदनगर से 130 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाउडर ,10 गोलिया अल्प्राजोलम टेबलेट के साथ गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

सोनी उर्फ फिरोज पुत्र रईसु नि० मौ० कुरैशियान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर



## **थाना टीला मोड पुलिस द्वारा मन्दिर में चोरी की घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को दानपात्र मय 4042 रूपये नकद गिरफ्तार किया।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को भारत सिटी मन्दिर से चोरी किये गये दानपात्र सहित गिरफ्तार किया।

दिनांक 16/05/2021 को समय 17.30 बजे भारत सिटी मन्दिर से तीन नामित अभियुक्तों द्वारा दानपात्र, पीतल कलश, माईक आदि चोरी करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना टीला मोड पर दिनांक 16/05/2021 को मु0अ0सं0 232/21 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 17/05/2021 को 20.45 बजे हीरो मोटर्स शौरूम के सामने टीलामोड से एक अभियुक्त सर्वेश पुत्र प्रमोद नि0 लडईया थाना पटियाली जनपद कासगंज हाल पता शालीमार गार्डन ब्लाक ए-35, सतीश का मकान थाना साहिबाबाद गा0बाद को मन्दिर से चोरी किया गया दानपात्र मय नकद 4042 रूपये के बरामद किया गया।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

(1) सर्वेश पुत्र प्रमोद नि0 लडईया थाना पटियाली जनपद कासगंज हाल पता शालीमार गार्डन ब्लाक ए-35, सतीश का मकान थाना साहिबाबाद

### **अभियुक्त से बरामदगी -**

(1) एक दान पात्र (लोहा) जिसमें कुल 4042 रूपये है।

### **अपराधिक इतिहास अभियुक्त**

1.मु0अ0सं0 232/21 धारा 380,411 भादवि थाना टीला मोड गा0बाद अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



## **थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तों को ताश पत्तो से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 6150 रूपये व ताश पत्तो सहित गिरफ्तार किया.**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तों को ताश पत्तो से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 6150 रूपये व ताश पत्तो सहित गिरफ्तार किया।

दिनांक 17/05/2021 को समय 21.30 बजे मुखबिर की सूचना पर पानी की टंकी के पीछे मौसम विहार पसौन्डा से अभिगण (1) नदीम कुरैशी S/o हाजी महमूद R/o नियर कुरेशियान मस्जिद पसौन्डा थाना टीला मोड गा0बाद (2) अलाउददीन S/o अलीमुदीन R/o अलीनगर पसौन्डा थाना टीला मोड गा0बाद (3) संदीप शर्मा S/o राकेश शर्मा R/o नियर बडी मस्जिद पसौन्डा थाना टीला मोड गा0बाद (4) आसिफ मलिक S/o अकरम मलिक R/o गली नं0 2, मुस्तफा बाद दिल्ली (5) रिजवान S/o वसीम, R/o बिलाल मस्जिद मौहल्ला अलीनगर पसौन्डा थाना टीला मोड गा0बाद (6) मौसीन s/o जमशेद निवासी मौसम विहार पसौन्डा थाना टीला मोड गा0बाद को ताश के पत्तो से हार जीत की बाजी लगाकर खेलते हुए 6150 रूपये नकद व ताश पत्तो सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 235/21 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

- (1) नदीम कुरैशी S/o हाजी महमूद R/o नियर कुरेशियान मस्जिद पसौन्डा थाना टीला मोड गा0बाद
- (2) अलाउददीन S/o अलीमुदीन R/o अलीनगर पसौन्डा थाना टीला मोड गा0बाद
- (3) संदीप शर्मा S/o राकेश शर्मा R/o नियर बडी मस्जिद पसौन्डा थाना टीला मोड गा0बाद
- (4) आसिफ मलिक S/o अकरम मलिक R/o गली नं0 2, मुस्तफा बाद दिल्ली
- (5) रिजवान S/o वसीम, R/o बिलाल मस्जिद मौहल्ला अलीनगर पसौन्डा थाना टीला मोड गा0बाद
- (6) मौसीन s/o जमशेद निवासी मौसम विहार पसौन्डा थाना टीला मोड गा0बाद

### **अभियुक्तों से बरामदगी –**

- (1) 4800 रूपये जामा तलाशी व 1350 रूपये नकद माल फड एवं 52 ताश पत्ते

### **अपराधिक इतिहास अभियुक्त**

1. मु0अ0सं0 235/21 धारा 13 जुआ अधि0 थाना टीला मोड गा0बाद अभियुक्तगण के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

थाना मुरादनगर पुलिस ने दिनांक 17.05.2021 को हुई हत्या की घटना का किया सफल अनवारण, घटना में शामिल 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

### घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 17.05.2021 समय करीब 18:00 बजे रावली रोड स्थित गुड मण्डी मे कुछ लडको द्वारा सोनू उर्फ डायलूटर पुत्र कैलाश निवासी बामनो की सीकरी थाना मोदीनगर के साथ मारपीट की गई थी तथा उपचार के दौरान सोनू उपरोक्त की मृत्यु हो गई थी ।

घटना के सम्बन्ध में मृतक की माँ श्रीमती कौशल पत्नी स्व० पप्पू उर्फ कैलाश नि० सीकरी कला थाना मोदीनगर गाजियाबाद की तहरीर पर थाना मुरादनगर पर मु०अ०स० 417/21 धारा 302 भादवि व 3(2)(v) SC/ST ACT तत्काल पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर को घटना के सफल अनावरण हेत निर्देशित किया गया । घटना के सफल अनावरण हेतु प्र०नि० मुरादनगर श्री अमित कुमार की एक टीम गठित की गई । गठित टीम द्वारा घटना का तत्काल अनावरण करते हुए पर्याप्त सक्ष्यो के आधार पर घटना मे शामिल तीनों अभियुक्तो 1. विकास पुत्र प्रकाश 2. कमल पुत्र प्रकाश 3. महिला अभियुक्ता निवासीगण जीत पुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद को तत्काल गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तो से आला कत्ल डण्डा भी बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणो विकास व कमल उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया की हमारा सोनू से पैसे को लेकर विवाद था । जिसके कारण हमारे उसके साथ मारपीट लाठी डण्डो ईट आदि से बुरी तरह से मारपीट की गई थी ।

### गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम पता

1. विकास पुत्र प्रकाश निवासी जीतपुर थाना मुरादनगर गा०बाद
2. कमल पुत्र प्रकाश निवासी जीतपुर थाना मुरादनगर गा०बाद
3. एक महिला अभियुक्ता

### बरामदगी

आला कत्ल खून से सनी ईट व 02 डण्डे ।



**थाना लोनी पुलिस द्वारा फर्जी मानवाधिकार संगठन का कार्यकर्ता बताकर मैडीकल स्टोर पर चैकिंग के नाम पर अवैध वसूली का प्रयास करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार ।**

दिनांक 17.05.2021 को श्री युसुफ अली पुत्र सननवर अली प्रशान्त विहार बुद्ध विहार लोनी, गाजियाबाद ने थाना हाजा पर आकर सूचना दी कि मेरे भाई के इकराम नगर स्थित मेडिकल स्टोर पर दो महिलाओं व दो पुरुष आकर अपने आपको मानवाधिकार संगठन का कार्यकर्ता बताकर मैडीकल स्टोर पर ग्राहकों को बेची जा रही दवाइयों की वीडियो व फोटोग्राफी करने लगे, फोटोग्राफी व वीडियो ग्राफी करने का कारण पूछा तो कहने लगे आप नकली व प्रतिबन्धित दवाइयां बेचते हैं हम चैकिंग करने के लिये आये हैं कुछ देर बाद इनके द्वारा मामला रफा दफा करने के लिये 50,000 रु0 की मांग की गयी, जब हमने इनके आई कार्ड व संगठन का पत्र मांगा और देखा तो हमें ये फर्जी लोग प्रतीत हुए ।

इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना लोनी पर मु0अ0सं0 618/21 धारा 420/384/506 भादवि पंजीकृत कर अभियोग से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण 1. नरेन्द्र कुमार पुत्र राम कुमार निवासी B/15 संगम विहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद स्थाई पता म0न0 300/4 सुरेन्द्र कालोनी जडोदा दिल्ली 2. सुधान्सु पुत्र प्रमोद कुमार निवासी बन्थला थाना लोनी गाजियाबाद एंव 02 महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है । जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि इन्हीं लोगों द्वारा करीब 20 दिन पूर्व कपिल मैडीकल स्टोर इन्द्रापुरी थाना क्षेत्र लोनी बार्डर गा0बाद पर भी इसी तरह से छपा मारा गया था । इस गैंग के सम्बन्ध में और विस्तृत छानबीन की जा रही है ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण-**

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र राम कुमार निवासी B/15 संगम विहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद स्थाई पता म0न0 300/4 सुरेन्द्र कालोनी जडोदा दिल्ली
2. सुधान्सु पुत्र प्रमोद कुमार निवासी बन्थला थाना लोनी गाजियाबाद
- 03- 02 महिला अभियुक्ता



**लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 06 अभियुक्तगण को 950 ग्राम एलप्राजोलम पाऊडर व गांजा सहित किया गिरफ्तार**

श्री अमित पाठक पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 06 अभियुक्त गण को 950 एलप्राजोलम पाऊडर व 420 ग्राम गांजा के साथ पवन अग्रवाल की फैक्ट्री के पास रूपनगर चौकी क्षेत्र रूपनगर से दिनांक 17.05.2021 को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

- 1.समीर पुत्र मौहम्मद इकबाल निवासी गली नंबर 01 प्रशांत विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
- 2.दीपक पुत्र सहदेव निवासी गली नंबर 05 गीतांजलि विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
- 3.राम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी 100 फुटा रोड नीलम फैक्ट्री के पास नाईपुरा थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद
4. शमशाद पुत्र मौहम्मद बशीर निवासी 30 फुटा रोड कंचन पार्क निकट बड़ी मस्जिद थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
5. नदीम पुत्र मौहम्मद जमीर निवासी गली नंबर 08 प्रशांत विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
- 6.अकबर पुत्र याकूब निवासी प्रशांत विहार याकीन सभासद के मकान के सामने थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

**बरामदगी का विवरण:-**

950 एलप्राजोलम पाऊडर  
420 ग्राम गांजा नाजायज



**थाना लोनी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तो को 120 एलप्राजोलम पाऊडर व एक अदद चाकू नाजायज सहित किया गिरफ्तार ।**

प्र0न0 लोनी मय टीम द्वारा 02 अभियुक्तो 1. सारिक पुत्र अब्दुल कमाल निवासी 20 फुटा रोड प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद 2.जावेद पुत्र अली हसन नि0 सुनहरी मस्जिद वाली गली मौ0 प्रेम नगर लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को क्रमशः एक अदद नाजायज चाकू व 120 एलप्राजोलम पाऊडर के साथ दिनांक 18.05.2021 को गिरफ्तार किया गया है ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

सारिक पुत्र अब्दुल कमाल निवासी 20 फुटा रोड प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद

जावेद पुत्र अली हसन नि0 सुनहरी मस्जिद वाली गली मौ0 प्रेम नगर लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

